

## प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03-06-2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही:-

अवगत कराना हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्रों में बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश पूर्व में दिये गये हैं। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण एवं समस्त क्षेत्राधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने नगर/ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाते हुये बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के चालान किये गये तथा भारी मात्रा में सम्मन शुल्क वसूल किया गया। जनपद पुलिस द्वारा की गई कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् हैं:-

नगर क्षेत्र/देहात क्षेत्र में की गई कार्यवाही का विवरण:-

➤ बिना मास्क के चालान:-134

➤ वसूला गया सम्मन शुल्क:-37550 /-रुपये

नोट- जनपदवासियों से अपील की जाती है कि जब भी घर से निकलें मास्क का प्रयोग अवश्य करें अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

## प्रेस नोट दिनांक 03.06.2021

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा गंगोह रोड पर यूनियन बैंक का बीसी केन्द्र चलाने वाले के साथ हुई लूट की घटना का किया सफल अनावरण, घटना को कारित करने वाले 04 शातिर लुटेरे बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार, कब्जे से लूट का सामान, घटना में प्रयुक्त की गई मो0सा0 व अवैध

### असलहा/कारतूस बरामद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 31.05.2021 को वादी श्री विकास कुमार पुत्र चमनलाल निवासी ग्राम ज्वासाखेडी दैदनोर थाना गंगोह जिला सहारनपुर द्वारा थाने पर लिखित सूचना दी गयी कि वह ग्राम बुन्दुगढ नानौता मे यूनियन बैंक का बीसी केन्द्र चलाता है जहाँ बैंक ग्राहको के पैसा का लेन-देन किया जाता है दिनांक 31.05.2021 को करीब 16.30 बजे अपनी बीसी केन्द्र बंद करके बचा हुआ पैसा करीब 80 हजार रुपये लेकर घर जा रहा था तो गंगोह रोड पर बैरियान के बाग के पास पीछे से 02 मोटर साइकिल पर 04 अज्ञात लडको द्वारा तमंचा दिखाकर 80 हजार रुपये व 01 मोबाइल फोन Redmi 7, पर्स जिसमे स्टेट बैंक का एटीएम, यूनियन बैंक के दो चैक, आधार कार्ड, बीसी पाइंट की ID लूट लिये है। तहरीर के आधार थाना नानौता पर दिनांक 02.06.2021 को मु0अ0स0 170/21 धारा 392 भादवि बनाम 02 मोटर साइकिल पर सवार 04 अज्ञात लडको के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए टीम गठित कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व लूटे गये रुपये व माल की बरामदगी हेतु थाना नानौता पुलिस को निर्देशित किया गया।

जिसके क्रम मे आज दिनांक 03.06.2021 को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह, सहारनपुर के कुशल निर्देशन मे थाना नानौता पुलिस द्वारा काशीपुर नहर पुल के पास से उक्त घटना मे शामिल 1-अफजाल पुत्र तौफिक नि0 मौ0 अफगानान कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर 2-आमिर पुत्र इकबाल नि0ग्राम बुन्दुगढ थाना नानौता जिला सहारनपुर 3-सागर उर्फ अरमान पुत्र नवाब नि0ग्राम एलम थाना कांधला जिला शामली 4-शाहरुख पुत्र इकबाल नि0ग्राम बुन्दुगढ थाना नानौता जिला सहारनपुर को समय करीब 09.30 बजे बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार करने मे महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है तथा गिरफ्तार अभियुक्तगणों के कब्जे से लूटे गये 70500 रुपये व पर्स ,स्टेट बैंक का एटीएम, यूनियन बैंक के दो चैक, आधार कार्ड, बीसी पाइंट की ID, घटना में प्रयुक्त की गई मो0सा0 व अवैध असलाह/कारतूस बरामद किये गये है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता :-

- 1-अफजाल पुत्र तौफिक निअफगानान कस्बा व थाना 0मौ0 नानौता जिला सहारनपुर
- 2-आमिर पुत्र इकबाल निग्राम बुन्दुगढ थाना नानौता जिला सहारनपुर0
- 3-सागर उर्फ अरमान पुत्र नवाब निग्राम एलम थाना काधला जिला शामली0
- 4-शाहरुख पुत्र इकबाल निग्राम बुन्दुगढ थाना नानौता जिला सहारनपुर0

### बरामदगी का विवरण :-

- 1-लूटे गये 70500 रुपये बरामद
- 2-02 अदद तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 02 खोखा कारतूस .315 बोर
- 3-मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रजि0 UP 19 K 2520 (लूट मे प्रयुक्त)
- 4-मो0सा0 स्पलेण्डर प्रो रजि0 UP 11 AJ 6183 (लूट मे प्रयुक्त)
- 5- 01 एटीएम कार्ड स्टेट बैंक आफ इण्डिया
- 6- 01 आधार कार्ड
- 7- 02 चैक यूनियन बैंक
- 8- 01 वादी की बीसी पाइंट की ID व पर्स

## पूछताछ का विवरण:-

दौराने पूछताछ अभियुक्तगणो द्वारा बताया कि दिनांक 31.05.21 को समय करीब 16.30 बजे हमने गंगोह नानौता मार्ग पर हमामपुर नहर के पास बैरियो के बाग से आगे एक व्यक्ति को तमंचा दिखाकर उससे 80 हजार रुपये व 01 मोबाइल फोन Redmi 7, पर्स जिसमे स्टेट बैंक का एटीएम, यूनियन बैंक के दो चैक, आधार कार्ड, बीसी पाइंट की ID लूट लिये थे। लूटा गया मो0फोन को हमने हमामपुर नहर मे फेक दिया था तथा लूट के 80 हजार मे से 9500 रुपये मौज मस्ती मे खर्च हो गये है शेष धन राशि तथा पर्स व आईडी जो हमसे बरामद हुई है उसी घटना की है

## आपराधिक इतिहास:-

### 1-अफजाल पुत्र तौफिक निअफगानान कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर 0मौ0

मु0अ0सं0 170/21 धारा 392/411ipc थाना नानौता, स0पुरा

मु0अ0सं0 171/21 धारा 307ipc थाना नानौता, स0पुरा

मु0अ0सं0 174/21 धारा 414/420ipc थाना नानौता, स0पुरा

### 2-आमिर पुत्र इकबाल निबुन्दुगढ थाना नानौता जिला सहारनपुर ग्राम0

मु0अ0सं0 170/21 धारा 392/411 भादवि

मु0अ0सं0 171/21 धारा 307 भादवि

मु0अ0सं0 172/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

मु0अ0सं0 174/21 धारा 414/420ipc थाना नानौता, स0पुरा

### 3-सागर उर्फ अरमान पुत्र नवाब निग्राम एलम थाना कांधला जिला शामली0

मु0अ0सं0 170/21 धारा 392/411 भादवि

मु0अ0सं0 171/21 धारा 307 भादवि

मु0अ0सं0 173/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

### 4-शाहरुख पुत्र इकबाल नि0ग्राम बुन्दुगढ थाना नानौता जिला सहारनपुर

मु0अ0सं0 170/21 धारा 392/411 भादवि

मु0अ0सं0 171/21 धारा 307 भादवि

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम :-

1-श्री सोबिर नागर थाना प्रभारी नानौता,स0पुर

2-उ0नि0 ललित तोमर थाना नानौता, स0पुर

3-है0का0 संजीव थाना नानौता, स0पुर

4-है0 का0 विजय कुमार थाना नानौता, स0पुर

5-है0का0 दिनेश सरोहा थाना नानौता, स0पुर

6-का0 विपिन कुमार थाना नानौता, स0पुर

7-हो0गा0 सतीश कुमार थाना नानौता, स0पुर



**प्रेस नोट दिनांक 03.06.2021**

**थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा गैंगेस्टर में वांछित 01**

**अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष थाना बिहारीगढ़ के कुशल नेतृत्व मे थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.06.2021 को मु0अ0स0 60/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर मे वांछित अभियुक्त शाबाज पुत्र रियाज निवासी ग्राम खुजनावर थाना फतेहपुर सहारनपुर को उसके मसकन ग्राम खुजनावर से समय करीब 05.35 बजे गिरफ्तार कर मा0न्या0 पेश किया जा रहा है।

**अभियुक्त का नाम व पता:-**

शाबाज पुत्र रियाज निवासी ग्राम खुजनावर थाना फतेहपुर सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. थानाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह
2. है0का0 लक्ष्मी प्रसाद
3. काअंकित कुमार

# प्रेस नोट दिनांक 03-06-2021

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त

गिरफ्तार, अभि० के कब्जे से गोकशी करने के उपकरण

## बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा गोकशों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03-06-2021 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 02 वांछित अभि०गण संबंधित मु०अ०स० 105/21 धार 3/5 सीएस एक्ट 1. दिलशाद पुत्र हनीफ 2. मुनशाद पुत्र हनीफ नि०गण ग्राम हबीबपुर तपोवन उर्फ ख्वाहशपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर को उपरोक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया अभि०गण के पास से गोकशी मे प्रयुक्त उपकरण बरामद किये गये अभि०गण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. दिलशाद पुत्र हनीफ नि० हबीबपुर तपोवन उर्फ ख्वाहशपुर थाना मिर्जापुर जनपद स०पुर
2. मुनशाद पुत्र हनीफ नि० हबीबपुर तपोवन उर्फ ख्वाहशपुर थाना मिर्जापुर जनपद स०पुर

## बरामदगी का विवरण: –

- एक छुरी व एक कुल्हाडी तथा रस्सी के टुकडे 02

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- ❖ उ०नि० श्री सुशील कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।
- ❖ है०का० 184 अशोक कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।
- ❖ का० 662 अंकित कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।
- ❖ का० 881 मनदीप थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।

## प्रेस नोट दिनांक 03-06-2021

### थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को नाजायज अस्लाह व नाजायज स्मैक के साथ गिरफ्तार किया:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे नशीले पदार्थों की खरीद फरोक्त/बेचने वालों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय के निर्देशन में दिनांक 02.06.21 को उ०नि० श्री प्रमोद कुमार द्वारा मय उ०नि० श्री गम्भीर सिंह मय हमराही का० अनुज सिरोही मय का० रोहित राणा मय का० सचिन कुमार के दौराने गस्त/चैकिंग अभियुक्त 01.शौकीन पुत्र अली हसन नि०मो० मातागढ कस्बा व थाना मिर्जापुर जनपद स०पुर 02. गुलबहार पुत्र सुलेमान नि० मो० शादीनगर कस्बा व थाना मिर्जापुर जनपद स०पुर को नाजायज स्मैक व अवैध अस्लाह सहित गिरफ्तार किया। आवश्यक कार्यवाही कर अभि०गणों को मा०न्यायालय भेजा गया।

#### गिरफ्तार किया गया अभियुक्त:-

- 1-शौकीन पुत्र अली हसन नि०मो० मातागढ कस्बा व थाना मिर्जापुर जनपद स०पुर
- 2- गुलबहार पुत्र सुलेमान नि० मो० शादीनगर कस्बा व थाना मिर्जापुर जनपद स०पुर

#### बरांमदगी का विवरण:-

- 1-एक अदद तमंचा 315 बोर मय 1 जिन्दा कार०
- 2-एक अदद नाजायज चाकू
- 3-22 ग्राम स्मैक
- 4-18 ग्राम स्मैक

#### आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु०अ०सं० 135/21 धारा 3/25आर्म्स एक्ट
- 2- मु०अ०सं० 136/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट
- 3- मु०अ०सं० 137/21 धारा 4/25आर्म्स एक्ट
- 4- मु०अ०सं० 138/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- (1) उ०नि० श्री प्रमोद कुमार
- (2) उ०नि० श्री गम्भीर सिंह
- (3)का० 148 अनुज सिरोही
- (4) का० 1203 रोहित राणा
- (5) का० 1105 सचिन कुमार

## प्रेस नोट दिनांक 03-06-2021

### थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 02-06-2021 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मथाना रोड से अभि० प्रवीण पुत्र अजब सिंह निवासी दाबकी थाना लक्शर हरिद्वार, उत्तराखण्ड को 135 पक्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु०अ०सं० 265/21 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

### थाना नानौता पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 02-06-2021 को थाना नानौता पुलिस द्वारा तीतरों मोड कस्बा नानौता से अभि० मोनू पुत्र रमेश निवासी ग्राम आभा थाना नानौता, सहारनपुर को 20 लीटर शराब खाम व लॉकडाउन का उल्लंघन करते समय गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु०अ०सं० 167/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० व 269,270 भादवि पंजीकृत किया गया।

### थाना नानौता पुलिस द्वारा अवैध डोडा पोस्ट चूर्ण सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 02-06-2021 को थाना नानौता पुलिस द्वारा सडक पुख्ता हमामपुर नहर पुल से भारी झाल को जाने वाली नहर पटरी पर से अभि० मुबारिक पुत्र महसुब निवासी टिडौली थाना नकुड, सहारनपुर को 2.5 किग्रा० डोडा पोस्ट चूर्ण सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु०अ०सं० 169/21 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

### थाना गंगोह पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 02-06-2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा लखनौती रोड बिजलीघर कस्बा नानौता से अभि० मुर्सलीन पुत्र कालू निवासी मौहल्ला गुजरान कस्बा व थाना गंगोह, सहारनपुर को 05 लीटर कच्ची शराब खाम नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु०अ०सं० 247/21 धारा 60(1)ख आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

### थाना रामपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 02-06-2021 को थाना रामपुर पुलिस द्वारा ईदगाह चौराहा से अभि० जतन पुत्र ब्रजपाल निवासी मौहल्ला इकराम कस्बा व थाना रामपुर, सहारनपुर को 06 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर पर मु०अ०सं० 171/21 धारा 60/63 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

### थाना चिलकाना पुलिस द्वारा नाजायज गांजा सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 02-06-2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा दुमझेडी बैंगनी तिराहा से अभि० नसीम उर्फ कल्लू पुत्र फजलूरहमान निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना, सहारनपुर को 01 किलोग्राम नाजायज गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 155/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीडिया / सोशल मीडिया सेल  
सहारनपुर।